



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 12—नवम्बर 18, 2016 (कार्तिक 21, 1938)

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 12—NOVEMBER 18, 2016 (KARTIKA 21, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	845	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1011	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	7	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2431	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 1561
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 555
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 2133
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	845	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1011	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2431	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1561
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	555
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	2133
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 24 अक्टूबर 2016

सं. ए-12018/2/2016-ईएसए(डब्ल्यूई)/(सा.का.नि.)—दत्तोपंत थेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (डीटीएनबीडब्ल्यूई एण्ड डी) के नियमों एवं विनियमों के नियम 13(iv) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किए गए किसी कार्यो अथवा किए जाने हेतु विलोपित करने हेतु अन्य बातों के संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी, डीटीएनबीडब्ल्यूई एण्ड डी में निम्न श्रेणी लिपिक समूह 'ग' के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. लघु शीर्ष और प्रारंभ—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, दत्तोपंत थेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड निम्न श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद हेतु भर्ती नियम, 2016 है। (ii) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट की जाएगी।

4. निरर्हता—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है,

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि यह केन्द्रीय सरकार उस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति—जहां डीटीएनबीडब्ल्यूई एण्ड डी की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़े प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

7. नियुक्ति प्राधिकारी—निदेशक, डीटीएनबीडब्ल्यूई एण्ड डी, डीटीएनबीडब्ल्यूई एण्ड डी के अंतर्गत किसी पद के संबंध में डीटीएनबीडब्ल्यूई एण्ड डी के उपनियमों के अनुसार नियुक्तियां करने को शक्ति प्राप्त प्राधिकारी की हेसियत से नियुक्ति प्राधिकारी हैं।

दत्तोपंत थेंगाड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड(डीटीएनबीडब्ल्यूईएण्डडी) में निम्न श्रेणी लिपिक के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	क्या सेवा के वर्धित वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
निम्न श्रेणी लिपिक	54 (वर्ष 2016 में) कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' गैर-राजपत्रित/गैर-लिपिकीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रुपये ग्रेड वेतन 1900/- रुपये	लागू नहीं	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच आयु(डीटीएनबीडब्ल्यूईएण्डडी के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)। आयु में छूट अ.जा., अ.जजा., अ.पि.व. तथा भारत सरकार के नियमों के अधीन यथा स्वीकार्य अन्य वर्गों के लिए भी है। नोट: आयु सीमा के निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।

सीधी भर्ती वालों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती से या पदोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन से तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन ग्रेडों द्वारा भर्ती के मामले में किन ग्रेडों से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसके सदस्य कौन होते हैं	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
8	9	10	11	12	13	14
<u>अनिवार्य</u> (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय	जी नहीं	दो वर्ष	(i) सीधी भर्ती द्वारा 85% (ii) 10% रिक्तियां 1800/- रुपये ग्रेड वेतन वाले उन 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता वाले समूह ग स्टाफ, जिन्होंने इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित	पदोन्नति: 5% रिक्तियां 1800/- रुपये के ग्रेड वेतन वाले पदों में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले समूह ग के फीडर वर्ग के	विभागीय स्थायीकरण समिति(डीसीसी):— 1) अपर निदेशक या उप निदेशक(मुख्यालय),	लागू नहीं

<p>से 12वीं कक्षा (10+2) या समतुल्य अर्हता</p> <p>(ii) कम्प्यूटर पर कौशल परीक्षा के मानदण्ड</p> <p>अंग्रेजी टंकण की गति 35 शब्द प्रति मिनट</p> <p>हिन्दी टंकण की गति 30 शब्द प्रति मिनट</p> <p>(अनुमेय समय – 10 मिनट)</p> <p>(35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी दबाने पर 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के तदनुरूप है)।</p>			<p>सेवा की हो, द्वारा विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी। परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। (अ.जा./अ.जजा. के लिए आयु 50 वर्ष)</p> <p><u>नोट:-</u> यदि खण्ड (ii) के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक ऐसे कर्मचारी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, तो ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों के नाम पर आने वाले वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियां भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पहले परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों पर बाद में परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों से पहले विचार किया जाए।</p> <p>(iii) 5% रिक्तियां 1800/- रुपये के ग्रेड वेतन वाले पदों में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले समूह ग के कर्मचारियों से वरिष्ठता-सह-स्वस्थता के आधार पर भरी जाएंगी।</p>	<p>कर्मचारियों (केवल एमटीएस और चौकीदार) से वरिष्ठता-सह-स्वस्थता के आधार पर भरी जाएंगी।</p> <p>नोट 1: जहाँ अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके फीडर वर्ग के कनिष्ठों के नाम पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहीं उनके वरिष्ठों पर भी पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक तक या दो वर्ष तक, जो भी कम हो, से पीछे न हों, तथा यह अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर चुके हों।</p> <p>नोट 2: रिक्तियां एमटीएस और चौकीदार वर्ग में 2:1 के अनुपात में बांटी जाएंगी।</p>	<p>डीटीएनबीडब्ल्यूई एण्डडी</p> <p>2) आँचलिक निदेशक, डीटीएनबीडब्ल्यूई एण्डडी</p> <p>3) सहायक निदेशक (प्रशासन), डीटीएनबीडब्ल्यूई एण्डडी</p>	
--	--	--	--	---	---	--

जी. ए. रघुवंशी
अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 24th October 2016

No. A-12018/2/2016—ESA(WE)/(G.S.R.)—In exercise of the powers conferred by the proviso to Rule 13(iv) of the Rules and Regulations of the Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development, (DTNBWE&D), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Competent Authority of Ministry of Labour & Employment, hereby makes the following Rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk Group 'C' in DTNBWE&D, namely:-

1. Short title and commencement.- (i) These Rules may be called the Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development Lower Division Clerk (LDC) Group 'C' posts Recruitment Rules, 2016. (ii) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale - The number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these Rules.
3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
4. Disqualification.- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax - Where the DTNBWE&D is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and with the prior approval of the Ministry of Labour & Employment, relax any of the provisions of these Rules with respect of any class or category of persons.
6. Saving - Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
7. Appointing Authority – The Director, DTNBWE&D is the Appointing Authority in relation to a post under the DTNBWE&D as the authority empowered to make appointments as per Bylaws of the DTNBWE&D.

Recruitment Rules for Lower Division Clerk in Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development, (DTNBWE&D)

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection post or non selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7
Lower Division Clerk	54 (In the year 2016) Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted/Non-Ministerial	Pay Band – 1 ₹ 5200-20200 Grade Pay ₹ 1900/-	Not Applicable	Not Applicable	Between 18 and 27 years of age (relaxable for employees of DTNBWE&D up to 5 year). Age is also relaxable for SC, ST, OBC and other categories as applicable under the Govt. of India rules. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications.

Education and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13	14
Essential (i) 12 th Class (10+2) or equivalent qualification from a recognized Board or University (ii) Skill Test Norms on Computer English Typing Speed @	No	Two years	(i) 85% by direct recruitment. (ii) 10% of the vacancies shall be filled from amongst the Group C Staff in the Grade Pay of Rs. 1800/ and who possess 12 th Class pass or equivalent qualifica-	Promotion: 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' feeder category employees (MTS & Chowkidar only) who have rendered 3 years regular service in posts with the	Departmental Confirmation Committee (DCC):- 1. Addl. Director or Dy. Director (HQ), DTNBWE&D 2. Zonal Director, DTNBWE&D 3. Asstt. Director (Admn.), DTNBWE&D	Not applicable

<p>35 w.p.m. Hindi Typing Speed @ 30 w.p.m.</p> <p>(Time allowed – 10 mts.)</p> <p>(35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).</p>			<p>tion and have rendered 3 years regular services in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years of age for the SC/ST)</p> <p>Note:- If more of such employees than the number of vacancies as available under Clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.</p> <p>(iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group C employees who have 3 years regular service in posts with the Grade Pay of Rs. 1800/-.</p>	<p>Grade Pay of ₹ 1800/-</p> <p>Note 1: Where juniors in feeder category who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: The vacancies will be divided in MTS and Chowkidar category in 2:1 Ratio.</p>		
---	--	--	--	--	--	--

G.A. RAGHUVANSHI
Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in